



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

28 भाद्र 1939 (श10)  
(सं0 पटना 855) पटना, मंगलवार, 19 सितम्बर 2017

---

सं० 04/वी0मु0-20-64/17-2322

खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

24 अगस्त 2017

श्री अर्जुन प्रसाद, प्रभारी सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, भोजपुर द्वारा Cr. Misc. No.-28774/2017 नर्बदेशवर सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में विभागीय आदेश एवं दिशा-निदेश के बावजूद माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं किया गया, जिससे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.2017 को पारित आदेश में विभाग पर प्रतिकूल टिप्पणी की गयी। विभागीय अधिसूचना संख्या-1651/एम0 दिनांक 29.06.17 के आलोक में जिला खनन कार्यालय, बक्सर का प्रभार नहीं लेना तथा इस संबंध में उनसे की गयी स्पष्टीकरण का प्रत्युत्तर नहीं देना कार्य के प्रति शिथिलता, उच्चाधिकारी के आदेश का उल्लंघन एवं कार्य के प्रति लापरवाही का सर्वथा द्योतक है।

2. आपके विरुद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोप के सम्यक समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है तथा श्री आनन्द प्रकाश सिन्हा, उप निदेशक, अंचल कार्यालय, पटना, खान एवं भूतत्व को संचालन पदाधिकारी एवं श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक, (मु0), खान एवं भूतत्व को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री प्रसाद को निदेश दिया जाता है कि अपना स्पष्टीकरण 15 दिनों के अन्तर्गत संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सुशील कुमार,  
सरकार के अवर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
बिहार गजट (असाधारण) 855-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>